

Roll No.-----

Paper Code		
2	9	7
(To be filled in the OMR Sheet)		

प्रश्नपुस्तिका क्रमांक
Question Booklet No.

O.M.R. Serial No.

--	--	--	--	--	--	--	--

प्रश्नपुस्तिका सीरीज
Question Booklet Series
C

LL.B (Fifth Semester) Examination, July-2022

(LL.B504)

Banking Law

(For Regular/Ex/Back Paper)

Time : 1:30 Hours

Maximum Marks-100

जब तक कहा न जाय, इस प्रश्नपुस्तिका को न खोलें

- निर्देश : —
1. परीक्षार्थी अपने अनुक्रमांक, विषय एवं प्रश्नपुस्तिका की सीरीज का विवरण यथास्थान सही- सही भरे, अन्यथा मूल्यांकन में किसी भी प्रकार की विसंगति की दशा में उसकी जिम्मेदारी स्वयं परीक्षार्थी की होगी।
 2. इस प्रश्नपुस्तिका में 100 प्रश्न हैं, जिनमें से केवल 75 प्रश्नों के उत्तर परीक्षार्थियों द्वारा दिये जाने हैं। प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर प्रश्न के नीचे दिये गये हैं। इन चारों में से केवल एक ही उत्तर सही है। जिस उत्तर को आप सही या सबसे उचित समझते हैं, अपने उत्तर पत्रक (O.M.R. ANSWER SHEET) में उसके अक्षर वाले वृत्त को काले या नीले बाल प्वाइंट पेन से पूरा भर दें। यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा किसी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर दिया जाता है, तो उसे गलत उत्तर माना जायेगा।
 3. प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। आप के जितने उत्तर सही होंगे, उन्हीं के अनुसार अंक प्रदान किये जायेंगे।
 4. सभी उत्तर केवल ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक (O.M.R. ANSWER SHEET) पर ही दिये जाने हैं। उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थान के अलावा अन्यत्र कहीं पर दिया गया उत्तर मान्य नहीं होगा।
 5. ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक (O.M.R. ANSWER SHEET) पर कुछ भी लिखने से पूर्व उसमें दिये गये सभी अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया जाय।
 6. परीक्षा समाप्ति के उपरान्त परीक्षार्थी कक्ष निरीक्षक को अपनी ओ०एम०आर० शीट उपलब्ध कराने के बाद ही परीक्षा कक्ष से प्रस्थान करें।
 7. निगेटिव मार्किंग नहीं है।

महत्वपूर्ण : —

प्रश्नपुस्तिका खोलने पर प्रथमतः जाँच कर देख लें कि प्रश्नपुस्तिका के सभी पृष्ठ भलीभाँति छपे हुए हैं। यदि प्रश्नपुस्तिका में कोई कमी हो, तो कक्ष निरीक्षक को दिखाकर उसी सीरीज की दूसरी प्रश्नपुस्तिका प्राप्त कर लें।

K-297

1. In the trial of an offence under section 138 of the Negotiable Instrument Act 1881, Which section of (Cr.P.C.) will apply ?

- (A) 225 to 237
- (B) 238 to 247
- (C) 250 to 260
- (D) 262 to 265

2. Which section provides that the offences under the Negotiable Instruments Act are compoundable?

- (A) 149
- (B) 146
- (C) 147
- (D) 145

3. Which one of the following section of Negotiable instrument is related with the power of the court to try the cases summarily ?

- (A) 144
- (B) 143
- (C) 141
- (D) 151

1. परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत किये गये अपराध में विचारण के लिये सी० आर० पी० सी० (Cr.P.C.) की कौन सी धारा लागू होगी ?

- (A) 225 से 237
- (B) 238 से 247
- (C) 250 से 260
- (D) 262 से 265

2. परक्राम्य लिखित अधिनियम की कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध शमनीय होते हैं ?

- (A) 149
- (B) 146
- (C) 147
- (D) 145

3. निम्नलिखित में से परक्राम्य लिखित अधिनियम की कौन सी धारा न्यायालय के द्वारा संक्षिप्त विचारण से संबंधित है ?

- (A) 144
- (B) 143
- (C) 141
- (D) 151

4. Section 141 of the Negotiable Instrument Act deals with the offence caused by the ?

- (A) Govt. Servant
- (B) Individual alone
- (C) Individual and companies both
- (D) Companies

5. Which one of the following court is empowered to try the offence relating to Dishonour of cheque for insufficiency etc. under negotiable instrument Act 1881 ?

- (A) Banking ombudsman
- (B) J.M. Ist class
- (C) J.M. IInd class
- (D) All of the above

6. For the purpose of section 141 of the negotiable instrument Act 1881 company means :

- (A) A firm
- (B) Anybody corporate
- (C) Other association of individuals
- (D) All of the above

4. परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 141 का संबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा कारित अपराधों से है ?

- (A) सरकारी सेवक
- (B) केवल व्यक्ति
- (C) व्यक्ति एवं कम्पनियाँ दोनों
- (D) कम्पनियाँ

5. निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत चैक के अनादरण संबंधी अपराध के विचारण के लिये सशक्त किया गया है ?

- (A) बैंकिंग लोकपाल
- (B) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (J.M. Ist class)
- (C) न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी (J.M. IInd class)
- (D) उपरोक्त सभी

6. परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 141 के प्रयोजनार्थ कम्पनी का अर्थ है :

- (A) एक फर्म
- (B) कोई भी निगमित निकाय
- (C) व्यक्तियों के अन्य संगम
- (D) उपरोक्त सभी

7. Under Negotiable Instrument Act how many days after service of notice of demand on drawer, the cause of action arises against the drawer; if he fails to make payment ?

- (A) 15 days
- (B) 60 days
- (C) 20 days
- (D) 26 days

8. A demand notice in writing has to be given to the Drawer by the payee under section 138 after the receiving intimation from the Bank of Dishonour of cheque, with in period of ?

- (A) 15 days
- (B) 60 days
- (C) 40 days
- (D) 30 days

9. Who is entitled to make a complaint for taking cognizance of the offence under section 138 of Negotiable Instrument Act 1881 ?

- (A) The Drawee bank
- (B) A public spirited person
- (C) Only the holder of the cheque
- (D) All of the above

7. परक्राम्य लिखित अधि० के अंतर्गत माँग की सूचना तामील होने तथा लेखीवाल के भुगतान करने में असफल रहने के कितने दिनों के बाद वाद हेतुक उत्पन्न होता है ?

- (A) 15 दिन
- (B) 60 दिन
- (C) 20 दिन
- (D) 26 दिन

8. परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के अन्तर्गत अपने बैंक से चैक अनादरण की सूचना प्राप्त होने पर चैक को पाने वाले के द्वारा लेखीवाल को लिखित में एक मांग की नोटिस किस अवधि के भीतर दी जानी होती है ?

- (A) 15 दिन
- (B) 60 दिन
- (C) 40 दिन
- (D) 30 दिन

9. परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान ग्रहण किये जाने हेतु परिवाद करने का अधिकार किसे प्राप्त है ?

- (A) अदाता बैंक
- (B) लोकाहित की भावना रखने वाले व्यक्ति को
- (C) केवल चैक के धारक को
- (D) उपरोक्त सभी को

- | | |
|---|--|
| <p>10. The offence of Dishonour of cheques is:</p> <p>(A) Compoundable</p> <p>(B) Non-compoundable</p> <p>(C) Both (A) and (B)</p> <p>(D) None of the above</p> | <p>10. चैक के अनादृत होने का अपराध है :</p> <p>(A) शमनीय</p> <p>(B) अशमनीय</p> <p>(C) (A) और (B) दोनों</p> <p>(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> |
| <p>11. For the purpose of attracting the provisions of section 138 of negotiable instrument Act a cheque has to be presented to the bank within period of ?</p> <p>(A) One month</p> <p>(B) Four month</p> <p>(C) Six month</p> <p>(D) Five month</p> | <p>11. परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिये एक चैक को किस अवधि के अंदर बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया गया होना चाहिये ?</p> <p>(A) एक माह</p> <p>(B) चार माह</p> <p>(C) छः माह</p> <p>(D) पाँच माह</p> |
| <p>12. Mens rea has no place while determining penal liability under section 138 of Negotiable Instrument Act 1881 this statement is :</p> <p>(A) Wrong</p> <p>(B) Partly correct</p> <p>(C) Correct</p> <p>(D) None of the above</p> | <p>12. परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के अंतर्गत दण्डिक दायित्व के निर्धारण के समय आपराधिक मनः स्थिति के लिये कोई स्थान नहीं होता यह कथन :</p> <p>(A) गलत है</p> <p>(B) आंशिक तौर पर सही है</p> <p>(C) सही है</p> <p>(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> |

13. "I promise to pay C Rs. 1000 and all such other sums which shall be due to him" this is a :

- (A) Promissory note
- (B) Cheque
- (C) Bill of exchange
- (D) None of the above

14. In case of a promissory note which is not negotiable :

- (A) Indorsement is necessary
- (B) No notice of dishonour is necessary
- (C) Notice of dishonour is compulsory
- (D) None of the above

15. The Term "A cheque in the electronic form" is defined in Negotiable instrument act 1881 under section:

- (A) 6 (a)
- (B) 6 (b)
- (C) 6 (c)
- (D) Explanation I (a) of section 6

13. "मैं ग का 1000 रु० तथा अन्य समस्त राशियां, जो उन्हें बकाया होगी, के भुगतान करने का वचन देता हूँ" यह लिखित है :

- (A) वचन पत्र
- (B) चैक
- (C) विनिमय पत्र
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

14. एक अपरक्राम्य वचन पत्र के मामले में :

- (A) पृष्ठांकन आवश्यक होता है
- (B) अनादर की सूचना आवश्यक नहीं होती
- (C) अनादर की सूचना देना अनिवार्य होता है
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

15. "इलेक्ट्रॉनिक रूप में चैक" शब्द को परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 में परिभाषित किया गया है। धारा—

- (A) 6 (क)
- (B) 6 (ख)
- (C) 6 (ग)
- (D) धारा 6 के स्पष्टीकरण I (क)

16. How much imprisonment may be give by the court on the dishonour of the cheque?

- (A) 2 years
- (B) 5 years
- (C) 10 years
- (D) 7 years

17. Which one of the following section is related with Non-liability of the banker receiving payment of cheque ?

- (A) 131
- (B) 132
- (C) 140
- (D) 145

18. Which one of the following section define specially crossed cheque ?

- (A) 121
- (B) 124
- (C) 126
- (D) 127

19. Which section is defines generally crossed cheque ?

- (A) 101
- (B) 122
- (C) 123
- (D) 121

16. न्यायालय चैक के अनादृत होने पर कारावास दे सकता है ?

- (A) 2 वर्ष
- (B) 5 वर्ष
- (C) 10 वर्ष
- (D) 7 वर्ष

17. निम्नलिखित में से कौन सी धारा चैक का संदाय प्राप्त करने वाले बैंकर के अदायित्व से संबंधित है ?

- (A) 131
- (B) 132
- (C) 140
- (D) 145

18. निम्नलिखित में से कौन सी धारा विशेषतः क्रॉस चैक को परिभाषित करती है ?

- (A) 121
- (B) 124
- (C) 126
- (D) 127

19. साधारणतः क्रॉस चैक को कौन सी धारा परिभाषित करती है ?

- (A) 101
- (B) 122
- (C) 123
- (D) 121

20. What are the types of cheque ?

- (A) Cheque crossed generally
- (B) Cheque crossed specially
- (C) Both (A) and (B)
- (D) None of the above

21. Which section is related with dishonour of cheque for insufficiency of funds in accounts?

- (A) 134
- (B) 136
- (C) 137
- (D) 138

22. Which chapter of Negotiable instrument act is related with “Penalties in case of Dishonour of cheque for insufficiency of funds in the accounts ?

- (A) 15
- (B) 16
- (C) 17
- (D) 18

20. चैक कितने प्रकार के होते हैं ?

- (A) साधारणतः क्रास चैक
- (B) विशेषतः क्रास चैक
- (C) (A) और (B) दोनों
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

21. कौन सी धारा लेखों में जमा राशि के अपर्याप्त होने के कारण चैकों के अनादृत होने से संबंधित है ?

- (A) 134
- (B) 136
- (C) 137
- (D) 138

22. परक्राम्य लिखित अधिनियम का कौन सा अध्याय लेखों में जमा राशि के अपर्याप्त होने के कारण चैकों के अनादृत होने से संबंधित है ?

- (A) 15
- (B) 16
- (C) 17
- (D) 18

23. Which section is related with the liability of drawee of the cheque ?

- (A) 31
- (B) 32
- (C) 48
- (D) 55

24. Which section is related with liability of the drawer ?

- (A) 27
- (B) 28
- (C) 29
- (D) 30

25. Which one of the following section is related with discharge of Indorser's liability?

- (A) 40
- (B) 41
- (C) 42
- (D) 43

26. The case of "Bhandari V/s Punjab National Bank is related with :

- (A) Indorsement in blank
- (B) Indorsement in full
- (C) Sans Recourse Indorsement
- (D) None of the above

23. कौन सी धारा चैक के ऊपरवाल के दायित्व से संबंधित है ?

- (A) 31
- (B) 32
- (C) 48
- (D) 55

24. कौन सी धारा लेखीवाल के दायित्व से संबंधित है ?

- (A) 27
- (B) 28
- (C) 29
- (D) 30

25. कौन सी धारा पृष्ठांकन कर्ता के उन्मोचन से संबंधित है ?

- (A) 40
- (B) 41
- (C) 42
- (D) 43

26. भण्डारी बनाम पंजाब नेशनल बैंक का वाद संबंधित है :

- (A) निरंक पृष्ठांकन
- (B) पूर्ण पृष्ठांकन
- (C) सेन्स रिर्कोस पृष्ठांकन
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

27. Which one of the following section is related with sans Recourse Indorsement ?

- (A) 52
- (B) 53
- (C) 54
- (D) 55

28. Indorsement is said to be "In Full":

- (A) When the Indorser sign his name only
- (B) When he adds a direction to pay the amount mentioned
- (C) When the Indorser sign his name and adds a direction to pay the amount
- (D) None of the above

29. Which section define indorsement in full ?

- (A) 15
- (B) 16
- (C) 17
- (D) 18

27. निम्नलिखित में से कौन सी धारा सेन्स रिर्कोस पृष्ठांकन से संबंधित है ?

- (A) 52
- (B) 53
- (C) 54
- (D) 55

28. पूर्ण पृष्ठांकन कहलाता है :

- (A) जब पृष्ठांकनकर्ता केवल अपना नाम हस्ताक्षरित करता है
- (B) जब वह वर्णित रकम को किसी व्यक्ति दिये जाने के लिये निर्देश जोड़ता है
- (C) जब पृष्ठांकनकर्ता अपना नाम लिखता है लिखित पर और किसी व्यक्ति को वर्णित रकम दिये जाने का निर्देश जोड़ता है
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

29. पूर्ण पृष्ठांकन किस धारा में परिभाषित है ?

- (A) 15
- (B) 16
- (C) 17
- (D) 18

30. Indorsement in blank means :
- (A) When the endorser signs his name only
 - (B) When he add the direction to pay the amount mentioned
 - (C) Both (A) and (B)
 - (D) None of the above

31. Which section define “Indorsement in blank” ?
- (A) 11
 - (B) 12
 - (C) 16
 - (D) 18

32. Who may indorse the instrument ?
- (A) Sole maker
 - (B) Drawer
 - (C) Payee
 - (D) All of the above

33. Effect of endorsement given under section :
- (A) 54
 - (B) 55
 - (C) 50
 - (D) 51

30. निरंक पृष्ठांकन से तात्पर्य है :

- (A) जब पृष्ठांकन केवल अपना नाम हस्ताक्षरित करता है
- (B) जब वह वर्णित रकम को किसी को देने का निर्देश जोड़ देता है
- (C) (A) और (B) दोनों
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

31. निरंक पृष्ठांकन को कौन सी धारा परिभाषित करती है ?

- (A) 11
- (B) 12
- (C) 16
- (D) 18

32. लिखित का पृष्ठांकन कौन कर सकता है ?

- (A) एकल रचयिता
- (B) लेखीवाल
- (C) पाने वाला
- (D) उपरोक्त सभी

33. पृष्ठांकन का प्रभाव दिया गया है धारा :

- (A) 54
- (B) 55
- (C) 50
- (D) 51

- | | |
|--|--|
| <p>34. Negotiation by indorsement given under section :</p> <p>(A) 44</p> <p>(B) 45</p> <p>(C) 46</p> <p>(D) 48</p> | <p>34. पृष्ठांकन द्वारा परक्रामण दिया गया है धारा :</p> <p>(A) 44</p> <p>(B) 45</p> <p>(C) 46</p> <p>(D) 48</p> |
| <p>35. "Negotiation may be by :</p> <p>(A) Delivery</p> <p>(B) Indorsement</p> <p>(C) Both (A) and (B)</p> <p>(D) None of the above</p> | <p>35. परक्रामण हो सकता है :</p> <p>(A) प्रदान द्वारा</p> <p>(B) पृष्ठांकन द्वारा</p> <p>(C) (A) और (B) दोनों</p> <p>(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> |
| <p>36. Which section is related with instrument obtained by unlawful means ?</p> <p>(A) 53</p> <p>(B) 58</p> <p>(C) 59</p> <p>(D) 60</p> | <p>36. कौन सी धारा अनुचित साधनों से लिखित प्राप्त करने से संबंधित है ?</p> <p>(A) 53</p> <p>(B) 58</p> <p>(C) 59</p> <p>(D) 60</p> |
| <p>37. Which section is related with "Negotiation" definition ?</p> <p>(A) 10</p> <p>(B) 11</p> <p>(C) 12</p> <p>(D) 14</p> | <p>37. कौन सी धारा "परक्रामण" की परिभाषा से संबंधित है ?</p> <p>(A) 10</p> <p>(B) 11</p> <p>(C) 12</p> <p>(D) 14</p> |

38. When it is said that instrument is negotiated ?

- (A) When it is transferred to any person so as to constitute that person holder there of
- (B) When it is not so transferred
- (C) Both (A) and (B)
- (D) None of the above

39. Under which section of Negotiable Instrument Act Foreign Instrument is give ?

- (A) 10
- (B) 11
- (C) 12
- (D) 13

40. Negotiable Instrument defined under section :

- (A) 11
- (B) 12
- (C) 13
- (D) 14

41. Negotiable Instrument can be made by :

- (A) Major
- (B) Minor
- (C) Both (A) and (B)
- (D) None of the above

38. लिखित कब परक्रामित हुआ कहा जाता है ?

- (A) जब लिखित का इस प्रकार से अंतरण किसी व्यक्ति को हो कि वह उसका धारक हो जाये
- (B) जब उसे इस तरह से अंतरित न किया गया हो
- (C) (A) और (B) दोनों
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

39. परक्राम्य लिखित अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत विदेशी लिखित को दिया गया है ?

- (A) 10
- (B) 11
- (C) 12
- (D) 13

40. "परक्राम्य लिखित" को परिभाषित किया गया है: धारा :

- (A) 11
- (B) 12
- (C) 13
- (D) 14

41. परक्राम्य लिखित बनाया जा सकता है :

- (A) वयस्क द्वारा
- (B) अवयस्क द्वारा
- (C) (A) और (B) दोनों
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

- | | |
|--|--|
| <p>42. Inchoate Stamped Instrument given under section :</p> <p>(A) 21</p> <p>(B) 20</p> <p>(C) 22</p> <p>(D) 23</p> | <p>42. स्ताम्पित अधूरी लिखित दी गई है धारा :</p> <p>(A) 21</p> <p>(B) 20</p> <p>(C) 22</p> <p>(D) 23</p> |
| <p>43. “Ambiguous Instrument” given under section :</p> <p>(A) 21</p> <p>(B) 20</p> <p>(C) 18</p> <p>(D) 17</p> | <p>43. संदिग्ध लिखित से संबंधित धारा है :</p> <p>(A) 21</p> <p>(B) 20</p> <p>(C) 18</p> <p>(D) 17</p> |
| <p>44. Boltan Vs. Dagdel case is related with :</p> <p>(A) Promissory note</p> <p>(B) Cheque</p> <p>(C) Hundi</p> <p>(D) None of the above</p> | <p>44. बोल्टन बनाम डगडेल का वाद संबंधित है :</p> <p>(A) वचन पल</p> <p>(B) चैक</p> <p>(C) हुण्डी</p> <p>(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> |
| <p>45. Indorsce from holder in due course given under section :</p> <p>(A) 50</p> <p>(B) 51</p> <p>(C) 52</p> <p>(D) 53</p> | <p>45. सम्यक अनुक्रम धारक से प्राप्तकर्ता किस धारा में दिया गया है :</p> <p>(A) 50</p> <p>(B) 51</p> <p>(C) 52</p> <p>(D) 53</p> |

46. Cheque may be :

- (A) Written
- (B) In Electronic form
- (C) Both (A) & (B)
- (D) None of the above

47. Holder in due course defined under section :

- (A) 2
- (B) 3
- (C) 9
- (D) 10

48. Cheque may be :

- (A) Crossed
- (B) Uncrossed
- (C) Both (A) & (B)
- (D) None of the above

49. Cheque will be payable :

- (A) On demand
- (B) Without demand
- (C) Both (A) & (B)
- (D) None of the above

50. "Cheque" defined Under Section :

- (A) 3
- (B) 4
- (C) 6
- (D) 2

46. चैक हो सकता है :

- (A) लिखित
- (B) इलेक्ट्रॉनिक रूप में
- (C) (A) एवं (B) दोनों
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

47. सम्यक अनुक्रम धारक को परिभाषित किया गया है धारा :

- (A) 2
- (B) 3
- (C) 9
- (D) 10

48. चैक हो सकता है :

- (A) रेखांकित
- (B) अरेखांकित
- (C) (A) एवं (B) दोनों
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

49. चैक देय है :

- (A) मांग पर
- (B) बिना मांग पर
- (C) (A) एवं (B) दोनों
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

50. चैक शब्द को परिभाषित किया गया है धारा :

- (A) 3
- (B) 4
- (C) 6
- (D) 2

- | | |
|---|--|
| <p>51. "Holder" defined Under Section :</p> <p>(A) 2</p> <p>(B) 3</p> <p>(C) 4</p> <p>(D) 8</p> | <p>51. "धारक" शब्द को परिभाषित किया गया है धारा :</p> <p>(A) 2</p> <p>(B) 3</p> <p>(C) 4</p> <p>(D) 8</p> |
| <p>52. How many sections are in Negotiable Instrument Act 1881 ?</p> <p>(A) 147</p> <p>(B) 220</p> <p>(C) 384</p> <p>(D) 510</p> | <p>52. परक्राम्य लिखित में कुल कितनी धारायें हैं ?</p> <p>(A) 147</p> <p>(B) 220</p> <p>(C) 384</p> <p>(D) 510</p> |
| <p>53. Who can accept the bill of exchange ?</p> <p>(A) Drawer</p> <p>(B) Drawee</p> <p>(C) Both (A) & (B)</p> <p>(D) None of the above</p> | <p>53. विनिमय पत्र को कौन स्वीकार कर सकता है?</p> <p>(A) लेखीवाल</p> <p>(B) ऊपरवाल</p> <p>(C) (A) एवं (B) दोनों</p> <p>(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> |
| <p>54. "Drawee in case of need" defined under section :</p> <p>(A) 7</p> <p>(B) 8</p> <p>(C) 9</p> <p>(D) 10</p> | <p>54. "जिकरीवाल" शब्द को परिभाषित किया गया है धारा :</p> <p>(A) 7</p> <p>(B) 8</p> <p>(C) 9</p> <p>(D) 10</p> |

55. The term “Drawee” defined under section :

- (A) 8
- (B) 7
- (C) 3
- (D) 2

56. “Drawer” defined under section :

- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 7

57. The person who makes the bill of exchange called :

- (A) Drawer
- (B) Drawee
- (C) Both (A) & (B)
- (D) None of the above

55. ऊपरवाल शब्द परिभाषित किया गया है धारा :

- (A) 8
- (B) 7
- (C) 3
- (D) 2

56. लेखीवाल शब्द को परिभाषित किया गया है धारा :

- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 7

57. विनिमय पत्र बनाने वाले व्यक्ति को कहा जाता है :

- (A) लेखीवाल
- (B) ऊपरवाल
- (C) (A) एवं (B) दोनों
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

58. Bill of exchange may be :

- (A) Oral
- (B) Written
- (C) Both (A) & (B)
- (D) None of the above

59. Mesan vs. Lake case is related with :

- (A) Promissory Note
- (B) Bill of exchange
- (C) Cheque
- (D) None of the above

60. How many parties are required for bill of exchange ?

- (A) 3
- (B) 1
- (C) 2
- (D) None of the above

61. "Bill of exchange" defined under section :

- (A) 4
- (B) 5
- (C) 6
- (D) 7

58. विनिमय पत्र हो सकता है :

- (A) मौखिक
- (B) लिखित
- (C) (A) एवं (B) दोनों
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

59. मेसेन बनाम लेक का वाद संबंधित है :

- (A) बचन पत्र
- (B) विनिमय पत्र
- (C) चैक
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

60. विनिमय पत्र में कितने पक्षकारों की आवश्यकता होती है ?

- (A) 3
- (B) 1
- (C) 2
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

61. विनिमय पत्र को परिभाषित किया गया है धारा:

- (A) 4
- (B) 5
- (C) 6
- (D) 7

62. The case of Akbar Khan vs Atar Singh is related with section :

- (A) 4
- (B) 10
- (C) 12
- (D) 15

63. Which of the following is a Negotiable Instrument ?

- (A) Promissory Note
- (B) Cheque
- (C) Bill of exchange
- (D) All of the above

64. Which one of the following is not a Negotiable Instrument ?

- (A) Promissory Note
- (B) Bill of exchange
- (C) Cheque
- (D) Coin

62. अकबर खान बनाम अतर सिंह का वाद किस धारा से संबंधित है :

- (A) 4
- (B) 10
- (C) 12
- (D) 15

63. निम्नलिखित में से कौन सा परक्राम्य लिखित है?

- (A) वचन पत्र
- (B) चैक
- (C) विनिमय पत्र
- (D) उपरोक्त सभी

64. निम्नलिखित में से कौन सा एक परक्राम्य लिखित है ?

- (A) वचन पत्र
- (B) विनिमय पत्र
- (C) चैक
- (D) सिक्का

65. How many chapters are in Negotiable Instrument Act 1881 ?

- (A) 17
- (B) 18
- (C) 19
- (D) 20

66. Promissory Note may be for :

- (A) Uncertain Sum
- (B) Certain Sum
- (C) Both (A) & (B)
- (D) None of the above

67. Promissory Note may be :

- (A) Unconditional
- (B) Conditional
- (C) Both (A) & (B)
- (D) None of the above

68. Promissory Note may be in :

- (A) Writing
- (B) Oral
- (C) Both (A) & (B)
- (D) None of the above

65. परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 में कितने अध्याय हैं ?

- (A) 17
- (B) 18
- (C) 19
- (D) 20

66. वचन पत्र हो सकता है :

- (A) अनिश्चित धनराशि के लिये
- (B) निश्चित धनराशि के लिये
- (C) (A) एवं (B) दोनों
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

67. वचन पत्र हो सकता है :

- (A) अशर्त
- (B) सशर्त
- (C) (A) एवं (B) दोनों
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

68. वचन पत्र हो सकता है :

- (A) लिखित
- (B) मौखिक
- (C) (A) एवं (B) दोनों
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

- | | |
|--|--|
| <p>69. "Promissory Note" defined under which section of Negotiable Instrument Act ?</p> <p>(A) 2</p> <p>(B) 3</p> <p>(C) 8</p> <p>(D) None of the above</p> | <p>69. परक्राम्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत "वचन पत्र" को परिभाषित किया गया है ?</p> <p>(A) 2</p> <p>(B) 3</p> <p>(C) 8</p> <p>(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> |
| <p>70. The word "Banker" defined under which section of Negotiable Instrument Act 1881 ?</p> <p>(A) 4</p> <p>(B) 5</p> <p>(C) 6</p> <p>(D) None of the above</p> | <p>70. शब्द "बैंकर" परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 की किस धारा में परिभाषित है ?</p> <p>(A) 4</p> <p>(B) 5</p> <p>(C) 6</p> <p>(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> |
| <p>71. Promissory note can be drawn for minimum Period of :</p> <p>(A) One year</p> <p>(B) Two year</p> <p>(C) Three year</p> <p>(D) No time limit is fixed</p> | <p>71. वचन पत्र किस न्यूनतम अवधि के लिये जारी किया जा सकता है :</p> <p>(A) एक साल</p> <p>(B) दो साल</p> <p>(C) तीन साल</p> <p>(D) कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है</p> |
| <p>72. The Enactment date of Negotiable Instrument Act 1881 is :</p> <p>(A) 9 December 1881</p> <p>(B) 10 March 1881</p> <p>(C) 11 March 1881</p> <p>(D) None of the above</p> | <p>72. परक्राम्य अधिनियम 1881 के अधिनियमित होने की दिनांक है :</p> <p>(A) 9 दिसंबर 1881</p> <p>(B) 10 मार्च 1881</p> <p>(C) 11 मार्च 1881</p> <p>(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> |

73. What is the year of “Negotiable instrument Act” ?

- (A) 1890
- (B) 1889
- (C) 1882
- (D) 1881

74. Total schedule in Banking Regulation Act 1949 is :

- (A) 7
- (B) 6
- (C) 5
- (D) 8

75. Total section in Banking Regulation act 1949 is :

- (A) 52
- (B) 51
- (C) 55
- (D) 56

76. What is the year of Foreign Exchange Management Act ?

- (A) 1998
- (B) 1999
- (C) 1991
- (D) 1992

73. परक्राम्य लिखित अधिनियम किस वर्ष का है ?

- (A) 1890
- (B) 1889
- (C) 1882
- (D) 1881

74. बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में कुल अनुसूचियाँ हैं :

- (A) 7
- (B) 6
- (C) 5
- (D) 8

75. बैंकिंग विनियमन अधि० 1949 में कुल धाराएँ हैं :

- (A) 52
- (B) 51
- (C) 55
- (D) 56

76. विदेशी विनिमय प्रबन्धन अधिनियम किस वर्ष का है ?

- (A) 1998
- (B) 1999
- (C) 1991
- (D) 1992

- | | |
|---|---|
| <p>77. Provision related to the composition of central Board of R.B.I. is :</p> <p>(A) Section-9</p> <p>(B) Section-4</p> <p>(C) Section-7</p> <p>(D) Section-8</p> | <p>77. आर० बी० आई० के केन्द्रीय बोर्ड के गठन से संबंधित धारा है :</p> <p>(A) धारा-9</p> <p>(B) धारा-4</p> <p>(C) धारा-7</p> <p>(D) धारा-8</p> |
| <p>78. Provision related to the capital of the R.B.I. is :</p> <p>(A) Section-6</p> <p>(B) Section-3</p> <p>(C) Section-4</p> <p>(D) Section-2</p> | <p>78. आर० बी० आई० की पूंजी से संबंधित धारा है:</p> <p>(A) धारा-6</p> <p>(B) धारा-3</p> <p>(C) धारा-4</p> <p>(D) धारा-2</p> |
| <p>79. Total schedule in Reserve Bank of India act 1934 is :</p> <p>(A) 5</p> <p>(B) 6</p> <p>(C) 7</p> <p>(D) 8</p> | <p>79. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में कुल अनुसूचियाँ हैं :</p> <p>(A) 5</p> <p>(B) 6</p> <p>(C) 7</p> <p>(D) 8</p> |
| <p>80. Total sections in Reserve Bank of India act 1934 is :</p> <p>(A) 61</p> <p>(B) 100</p> <p>(C) 147</p> <p>(D) 200</p> | <p>80. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में कुल धारायें हैं :</p> <p>(A) 61</p> <p>(B) 100</p> <p>(C) 147</p> <p>(D) 200</p> |

81. What is the Enactment date of Reserve Bank of India Act 1934 ?

- (A) 16 March 1934
- (B) 15 March 1934
- (C) 8 March 1934
- (D) 6 March 1934

82. What is the meaning of “Bancus”-

- (A) Bench
- (B) Chair
- (C) Bed
- (D) None of the above

83. What is the Act No. of Reserve Bank of India Act 1934 ?

- (A) Act No-2
- (B) Act No-1
- (C) Act No-3
- (D) Act No-4

84. What is the year of Banking companies Act ?

- (A) 1950
- (B) 1951
- (C) 1949
- (D) 1942

81. भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम 1934 के अधिनियमित होने की दिनांक क्या थी ?

- (A) 16 मार्च 1934
- (B) 15 मार्च 1934
- (C) 8 मार्च 1934
- (D) 6 मार्च 1934

82. शब्द “बैंकस” का अर्थ क्या है ?

- (A) बेंच
- (B) कुर्सी
- (C) बेड
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

83. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 का अधिनियम संख्या क्या है ?

- (A) अधिनियम सं०-2
- (B) अधिनियम सं०-1
- (C) अधिनियम सं०-3
- (D) अधिनियम सं०-4

84. बैंकिंग कम्पनी अधिनियम किस वर्ष का है ?

- (A) 1950
- (B) 1951
- (C) 1949
- (D) 1942

85. What is the year of Reserve Bank of India Act ?

- (A) 1932
- (B) 1934
- (C) 1947
- (D) 1950

86. Which one of the following is not a type of Account ?

- (A) Saving Account
- (B) Current Account
- (C) Regular Account
- (D) None of the above

87. the term "Bancus" is a :

- (A) English
- (B) French
- (C) American
- (D) None of the above

88. Banker's Right to Lien is governed by :

- (A) Law of contract
- (B) Indian Penal code
- (C) Cr. P. C.
- (D) None of the above

85. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम किस वर्ष का है?

- (A) 1932
- (B) 1934
- (C) 1947
- (D) 1950

86. निम्न में से कौन एक खाते का प्रकार नहीं है?

- (A) बचत खाता
- (B) चालू खाता
- (C) नियमित खाता
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

87. शब्द "बैंकस" है :

- (A) अंग्रेजी
- (B) फ्रेंच
- (C) अमेरिकन
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

88. बैंको का धारणाधिकार शासित होता है :

- (A) संविदा विधि
- (B) भारतीय दण्ड संहिता
- (C) सी० आर० पी० सी०
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

89. Banker's Right to Lien is a right to:
- (A) Retain the goods
 - (B) Right to mortgage the goods
 - (C) Right to Lease the goods
 - (D) None of the above
90. Relationship of Banker and customer may be :
- (A) Debtor and creditor
 - (B) Principal & Agent
 - (C) Bailee and bailor
 - (D) All of the above
91. Who give Duration theory ?
- (A) Sir John Paget
 - (B) Hals Burry
 - (C) Blackstone
 - (D) None of the above
92. Which one of the following is not an act of Bank ?
- (A) Accepting of deposits
 - (B) Lending of Money
 - (C) Remittance of Funds
 - (D) Issuing the shares
89. बैंक का धारणाधिकार है :
- (A) माल को रोके रखने का अधिकार
 - (B) माल के बंधक का अधिकार
 - (C) माल के पट्टे का अधिकार
 - (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
90. बैंक और ग्राहक के बीच संबंध हो सकता है :
- (A) ऋणी और लेनदार का
 - (B) स्वामी और अभिकर्ता का
 - (C) उपनिहिती और उपनिधाता का
 - (D) उपरोक्त सभी
91. "कालावधि" का सिद्धान्त किसने दिया ?
- (A) सर जॉन पेजेट
 - (B) हाल्स बरी
 - (C) ब्लैकस्टोन
 - (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
92. निम्न में से बैंक का कौन सा एक कार्य नहीं है ?
- (A) जमा को प्राप्त करना
 - (B) धन को उधार देना
 - (C) धन का प्रेषण
 - (D) अंशों को जारी करना

93. What is the enforcement date of Banking Regulation Act 1949 ?

- (A) 25 March 1949
- (B) 16 March 1949
- (C) 21 March 1949
- (D) 21 July 1949

94. First time how many Banks were nationalized ?

- (A) 14 Banks
- (B) 18 Banks
- (C) 20 Banks
- (D) None of the above

95. What is the date of Nationalisation of the Indian Banks ?

- (A) July 02 1969
- (B) July 01 1969
- (C) July 20 1969
- (D) July 19 1969

93. बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के लागू होने की तिथि क्या है ?

- (A) 25 मार्च 1949
- (B) 16 मार्च 1949
- (C) 21 मार्च 1949
- (D) 21 जुलाई 1949

94. पहली बार कितीन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था ?

- (A) 14 बैंक
- (B) 18 बैंक
- (C) 20 बैंक
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

95. भारतीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण की तिथि क्या है?

- (A) 2 जुलाई 1969
- (B) 1 जुलाई 1969
- (C) 20 जुलाई 1969
- (D) 19 जुलाई 1969

96. Banking system was originated from :

- (A) Babylon
- (B) U.S.A
- (C) Britain
- (D) None of the above

97. What is the enactment date of Banking Regulation Act 1949 ?

- (A) 11 March 1949
- (B) 12 July 1949
- (C) 10th March 1949
- (D) 13 July 1950

98. Under which schedule of RBI Act scheduled Bank Mentioned ?

- (A) Schedule-1
- (B) Schedule-2
- (C) Schedule-3
- (D) Schedule-4

96. बैंकिंग प्रणाली की उत्पत्ति हुई थी :

- (A) बेबीलोन
- (B) यू० एस० ए०
- (C) ब्रिटेन
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

97. बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949 की अधिनियमित होने की तिथि क्या है ?

- (A) 11 मार्च 1949
- (B) 12 जुलाई 1949
- (C) 10 मार्च 1949
- (D) 13 जुलाई 1950

98. आर० बी० आई० अधिनियम की किस अनुसूची में अनुसूचित बैंक दिये गये हैं ?

- (A) अनुसूची-1
- (B) अनुसूची-2
- (C) अनुसूची-3
- (D) अनुसूची-4

99. Which section of the Banking Regulation act 1949 define the word "Banking" ?

- (A) Section 5 (a)
- (B) Section 5 (b)
- (C) Section 5 (d)
- (D) Section 5 (c)

100. The word "Bank" derived from :

- (A) Bancus
- (B) Banking
- (C) Bang
- (D) None of the above

99. बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949 की कौन सी धारा शब्द बैंकिंग को परिभाषित करती है ?

- (A) धारा 5 (क)
- (B) धारा 5 (ख)
- (C) धारा 5 (घ)
- (D) धारा 5 (ग)

100. शब्द "बैंक" लिया गया है :

- (A) बैंकस
- (B) बैंकिंग
- (C) बैंग
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

Rough Work / रफ कार्य

DO NOT OPEN THE QUESTION BOOKLET UNTIL ASKED TO DO SO

1. Examinee should enter his / her roll number, subject and Question Booklet Series correctly in the O.M.R. sheet, the examinee will be responsible for the error he / she has made.
2. **This Question Booklet contains 100 questions, out of which only 75 Question are to be Answered by the examinee. Every question has 4 options and only one of them is correct. The answer which seems correct to you, darken that option number in your Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET) completely with black or blue ball point pen. If any examinee will mark more than one answer of a particular question, then the answer will be marked as wrong.**
3. Every question has same marks. Every question you attempt correctly, marks will be given according to that.
4. Every answer should be marked only on Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET). Answer marked anywhere else other than the determined place will not be considered valid.
5. Please read all the instructions carefully before attempting anything on Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET).
6. After completion of examination, please hand over the O.M.R. SHEET to the Examiner before leaving the examination room.
7. There is no negative marking.

Note: On opening the question booklet, first check that all the pages of the question booklet are printed properly in case there is an issue please ask the examiner to change the booklet of same series and get another one.